

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० २०५] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर १७, १९७०/अग्राहायण २६, १८९२

[No. 205] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 17, 1970/AGRAHAYANA 26, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 17th December 1970

SUBJECT:—U.S. AID programme—Chartering of Ocean Vessels and embargo on certain vessels
for transport of AID financed goods.

NO. 181-ITC (PN)/70.—It has been decided to make the following additions/deletions in the list of vessels declared as ineligible to carry AID financed goods attached to the Ministry of Commerce Public Notice No. 120-ITC (PN)/68, dated the 26th June 1968 as amended by Public Notices, Nos. 185—ITC(PN)/68, dated 3-9-68, 277-ITC(PN)/68, dated 26-12-68, 151—ITC (PN)/69, dated 12-9-69, 194-ITC (PN)/69, dated 3-12-69 and 172-ITC(PN)/70, dated the 28th November, 1970.

ADDITIONS:

(i) Cypriot.

ANTIGONI
ARDENA
CLEO II

(1251)

GIANNIS
KYPROS
MARCO
SPYRO
AFTADELFOS
BYRON
CASTALIA
NEA HELLAS
NIKE
PATRICIA
SILVER COAST
SUCCESSOR
VENUS

(ii) *British.*

CORAL ISLANDS
PRECIOUS PEARL
SEA MOON

(iii) *Somali.*

HEMISPHERE (Previous trips to Cuba—**British**)
DIMITRAKIS
NEBULA—(Trips to Cuba—**British**).

DELETIONS:

(i) *Cypriot*

TOULA—(Previous trips to Cuba—**Lebanese**)

(ii) *British*

NEBULA
HEMISPHERE

(iii) *Greek*

ALLARTOS (Trip to Cuba as the LORADORE—**British**)

(iv) *Japanese*

CHOKYU MARU

R. J. REBELLO,
Chief Controller of Imports & Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 17 दिसम्बर, 1970

विषय : संयुक्त राज्य अमरीका औद्योगिक विकास अधिकरण कार्यक्रम महासागर जलयानों को अधिकार-पत्र देना तथा औद्योगिक विकास अधिकरण वित्तियुक्त माल के परिवहन के लिए कतिपय जलयानों पर व्यापारावरोध ।

सं० 181 आई० टी० सी० (पी० एन०)/70.—सार्वजनिक सूचनाएं सं० 185-आई० टी० सी० (पी० एन०)/68, दिनांक 3-9-1968, 277-आई० टी० सी० (पी० एन०)/68,

दिनांक 26-12-68, 151 आई० टी० सी० (पी० एन०)/69, दिनांक 12-9-69, 194-आई० टी० सी० (पी० एन०)/69, दिनांक 3-12-1969 और 172-आई० टी० सी० (पी० एन०)/70, दिनांक 28-11-1970 द्वारा संशोधित वाणिज्य मंत्रालय की सार्वजनिक सूचना संख्या 120-आई० टी० सी० (पी० एन०)/68, दिनांक 26-6-68 से सम्बद्ध औद्योगिक विकास अधिकरण वित्तियुक्त माल का परिवहन करने के लिए अपात घोषित किए गए जलयानों की सूची में निम्नलिखित संकलन, विलोपन करने का निश्चय किया गया है :-

संकलन :

(1) साइप्रियट

एन्टिगोनी
भारडेना
विलम्रो II
जिएनिस
किपरोस
मारको
स्पाइरो
अफस्ताडेल्फोस
वाइरल
कैस्टेलिया
निम्ना हैल्लास
नाइक
पेट्रीसिम्ना
सिल्वर कोस्ट
सफसेसर
वीनस

(2) ब्रिटिश

कोरल ग्राइलैण्डस
प्रीसिअस पर्ल
सी मून

(3) सोनाली

हेरमिस्फिर (पिछली यात्राएँ क्यूबा-ब्रिटिश को)
डिमिट्रेकिस
नेबला-(क्यूबा-ब्रिटिश को यात्राएं)

बिलीपन

- (1) साइप्रियट
टोला-(पिछली यात्राएं क्यूबा-लीबानीज को)
- (2) ब्रिटिश
नेबला
हैमिस्फियर
- (3) ग्रीक
एलियरटोस-(लोराडोरे-ब्रिटिश के रूप में क्यूबा को यात्राएं)
- (4) जापानी
चोक्यू मारू

भार० जे० रबीलो,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात ।